

(12)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24, 1970/माघ 4, 1891

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24, 1970/MAGHA 4. 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 24th January 1970

G.S.R. 155.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Third Amendment) Rules, 1970.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Excise Rules, 1944, in sub-rule (2) of rule 173G, after proviso (iii), the following proviso shall be inserted, namely:—

“(iv) in respect of removal of any goods after 6 o'clock in the afternoon on the day preceding the date appointed for the presentation of the annual or any supplementary Budget of the Central Government to Parliament, the provisions of sub-rule (1) of rule 224 shall apply.”

[No. 4/70-C.E./F.No.11/1/69-CX.I/CX.6.]

A. S. BERAR, Dy. Secy.

विस्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1970

स।० का।० नि० 155 :—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तृतीय संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे ।
- 2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 छ के उपनियम (2) में, परन्तुक (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- “(iv) केन्द्रीय सरकार के वार्षिक या किसी अनपूरक बजट के संसद को पेश किए जाने के लिए नियत तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को 6 बजे अपराह्न के पश्चात् कोई माल हटाए जाने की बाबत, नियम 224 के उपनियम (1) के उपबन्ध लागू होंगे ।”

[सं० 4/70 के० उ० शु०/रफ० सं० 11/1/69—सी एक्स 1/सी—एक्स 6]

ए० एस० बराड़, उप सचिव ।